



दिनांक:- 31.03.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



**जनपद महोबा में होली त्यौहार सकुशल सम्पन्न होने के पश्चात
पुलिस व प्रशासन के अधिकारियों/कर्मचारियों ने हर्षोल्लास के साथ मनाया होली मिलन समारोह...।**



जीवन में इसी प्रकार खुशियां भरते रहे, इस मौके पर सभी के द्वारा अबीर व गुलाल लगाकर एक दूसरे को त्यौहार की शुभकामनाएं दी गयी।



पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन पर जनपद महोबा में होली का त्यौहार सकुशल सम्पन्न होने के पश्चात आज दिनांक **31.03.2021** को पुलिस लाइन्स महोबा में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, इस अवसर पर जनपद के समस्त प्रशासन व पुलिस के अधिकारी/कर्मचारी व उनके परिवारीजन मौजूद रहे। पुलिस अधीक्षक द्वारा समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों व उनके परिवारीजनों को होली के त्यौहार की शुभकामनाएं दी गयी व कहा गया कि रंगों का त्यौहार होली सभी के



दिनांक:- 31.03.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



थाना अजनर पुलिस टीम ने 02 तमंचे 315 बोर, 05 अधबने तमंचे 315 बोर एवं 12 बोर के, तथा 02 जिन्दा व 05 खोखा कारतूस के साथ अभियुक्त को किया गिरफ्तार..।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन पर तथा अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर.के.गौतम व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री राजकुमार पाण्डेय के सफल पर्यवेक्षण में जनपदीय पुलिस द्वारा आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को सकुशल सम्पन्न कराये जाने के मद्देनजर अपराध पर अंकुश व अपराधियों को चिन्हित कर उनकी गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना अजनर पुलिस द्वारा अबैध शस्त्र रखने व शस्त्र बनाने वालों के विरुद्ध चलाये जा रहे धरपकड़/गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में **SHO** अजनर श्री श्याम प्रताप पटेल द्वारा गठित व 030 नि 0 रामप्रताप यादव के नेतृत्व में टीम द्वारा मुखविर की सूचना पर अभियुक्त मकरेन्द्र राजपूत उर्फ मकरन्द पुत्र भानसिंह उम्र 23 वर्ष नि. ग्राम वुधवारा थाना अजनर जनपद महोबा को पहाड़िया वहद ग्राम के पास से आज दिनांक 31.03.2021 को मय **02 अदद देशी तमंचा 315 बोर नाजायज व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर व 05 अदद खोखा कारतूस 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर व 03 अदद अधबने तमंचा 315 बोर व 02 अदद अधबना तमंचा 12 बोर व शस्त्र बनाने के उपकरणों सहित गिरफ्तार** किया गया, गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना हाजा पर मु.अ.स. 58/2021 धारा 5/25 आर्म एक्ट पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण-

1. वरिष्ठ उ. नि. रामप्रताप यादव
2. उ. नि. हरिश्चन्द्र मिश्रा
3. का. हरिओम यादव
4. का. जितेन्द्र सिंह गौतम
5. कां0 राममिलन
6. चालक का. चन्दन पांचाल थाना अजनर जनपद महोबा



गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण...।

मकरेन्द्र राजपूत पुत्र भानसिंह उम्र 23 वर्ष नि. ग्राम वुधवारा थाना अजनर जनपद महोबा



दिनांक:- 31.03.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



पंचायत चुनाव के मद्देनजर **जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक** द्वारा जनपद के स्ट्रांग रूम, मतगणना स्थल, पोलिंग पार्टियों के **रवानगी स्थल आदि का किया गया निरीक्षण**
साथ ही जनपदीय पुलिस द्वारा पैदल गस्त करके की गई संदिग्धों की चेकिंग



आज दिनांक 31.03.2021 को जिलाधिकारी महोबा श्री सत्येन्द्र कुमार, पुलिस अधीक्षक श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव द्वारा त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर जनपद के जैतपुर, पनवाड़ी, चरखारी, महोबा शहर में बने स्ट्रांग-रूम, मतगणना स्थल एवं पोलिंग पार्टियों के रवानगी स्थलों का मौके पर जाकर बारीकी से निरीक्षण किया गया एवं सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

इसके साथ ही सीओ सिटी श्री रामप्रवेश राय मय कोतवाली महोबा पुलिस एवं पीएसी के साथ नगर के मुख्य बाजार में पैदल गस्त करके संदिग्धों की चेकिंग की गई। अन्य थानों द्वारा भी पैदल गस्त के दौरान शराब की दुकानों, संदिग्ध वाहनों आदि की चेकिंग की गई।

